

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जनवरी २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- (i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के 33 प्रोफार्मा तथा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती करने हेतु पदों के लिए मंत्रालयों/विभागों से यूपीएससी में मांग पत्र प्राप्त करने हेतु जांच सूची को दिनांक 16.01.2020 के का.जा.सं. 39011/02/2019-स्था.(ख) के माध्यम से संशोधित किया गया एवं सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया।
- (ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को दिनांक 21.01.2020 के का.जा.सं. 43014/03/2019-स्था.(ख) के माध्यम से यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालयों/विभागों में मौजूद रिक्तियों को समय बद्ध रूप से भरने की कार्रवाई करें।
- (iii) रिअर एडमिरल शेखर मित्तल (सेवानिवृत्त) को दिनांक 30.01.2020 की अधिसूचना सं. 44011/7(एस)/2019-स्था.(ख-II) के माध्यम से दिनांक 15.01.2020 से पीईएसबी के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (iv) सीजीएलई-2017 के 371 सहायक अनुभाग अधिकारियों (एसओ) के संबंध में नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को दिनांक 29.01.2020 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।
- (v) कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 29.01.2020 को कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक,वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2019 के प्रश्न पत्र-1 के परिणाम की घोषणा की।
- (vi) विभाग का प्रथम खेल दिवस समारोह दिनांक 25.01.2020 को विनय मार्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया।
- (vii) पीईएसबी, डीओपीटी ने 19 (उन्नीस) पदों [सीएमडी/एमडी के 06 (छः) पद/निदेशक के 13 (तेरह) पद] के लिए विज्ञापन जारी किया।
- (viii) मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची क एवं ख के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 03 मामलों (03 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की पांच (05) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी

निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की तीन (03) नियुक्तियों, निजी सचिवों की नियुक्ति के तीन (03) प्रस्तावों, विशेष कार्यकारी अधिकारी के दो (02) प्रस्ताव, गैर-सीएसएस पद पर नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव और कार्यकाल विस्तार के पांच (05) प्रस्तावों का मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन किया गया। इसके अलावा, डीसीओ के रूप में पांच (05) अधिकारियों को नियुक्त किया गया और एसीसी ने संयुक्त सचिव (सीवीओ) की तीन (03) नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया।

(ix) जनवरी, 2020 माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) में 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसमें 02 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-ड.-61 और स्तर-ख-89) तथा 03 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-III-42, स्तर-III-43 और स्तर-III-49) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 487 थी।

2. उपर्युक्त के अलावा, विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए थे :-

- (i) दिनांक 10.01.2020 के का.जा.सं. एबी-14017/30/2011-स्थापना (आरआर) के माध्यम से संगठित समूह 'क' सेवा के अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक स्तरोन्नयन को अनुमोदन।
- (ii) दिनांक 16.01.2020 के का.जा.सं. 4/3/2019-जेसीए के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों में विभागीय परिषदों का गैर-संघटन।
- (iii) दिनांक 24.01.2020 के का.जा.सं. 21/2/2009-सीएस-।(पी) के माध्यम से सीएसएस अधिकारियों पर लागू रोटेशनल स्थानांतरण नीति (आरटीपी) का आंशिक संशोधन।
- (iv) दिनांक 21.01.2020 के आदेश के माध्यम से लोकपाल सचिवालय के पदों को डीओपीटी में संवर्गीकृत किया गया।